

विद्याभवन बालिका विद्यापीठ लखीसराय

कक्षा - षष्ठ

दिनांक - ३० - ०४ - २०२१

विषय - हिन्दी

विषय शिक्षक - पंकज कुमार

एन, सी, ई, आरटी, पर आधारित

सुप्रभात बच्चों आज सी, सी, ए, के अन्तर्गत छोटे से तथ्य के बारे में अध्ययन करेंगे ।

छोटा सा तथ्य

एक छोटे से तथ्य के माध्यम से समझिए। मान लीजिए कि कोई पति पत्नी कही घूमने जा रहे हैं। और उनके साथ एक घोड़ा भी है।

जब दोनों पति पत्नी उस घोड़े पर सवार होकर चले तो आपको ऐसे लोग जरूर मिलेंगे। जो कहेंगे या कह नहीं सके तो अपने मन में तो जरूर सोचेंगे कि कैसे व्यक्ति है। इनको इस घोड़े पर बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा है। *दोनों ऊपर बैठकर मजे से घूम रहे हैं।*

अगर स्थिति बदल दी जाए कि पति घोड़े पर बैठा हो और पत्नी पैदल चल रही हो। तब लोगो का कहना होगा कैसा पति है। ये अपनी पत्नी को ज़रा भी प्यार नहीं करता है। *खुद तो ऊपर बैठा है और पत्नी को पैदल चलना पड़ रहा है।*

अगर इसके विपरीत पत्नी को ऊपर बैठा दिया जाए और पति पैदल चलने लगे तो दोनों पक्षों में लोगो के विचार होंगे कि कैसा आदमी है। ये अपनी पत्नी के आगे आगे नाच रहा है। *खुद तो पैदल चल रहा है।* और पत्नी को ऊपर बैठा रखा है। तो कुछ ये भी कह देंगे कि कितना प्यार करता है, ये अपनी पत्नी से जो खुद पैदल चल रहा है। और पत्नी को घोड़े कि सवारी करा रहा है।

अगर यह स्थिति हो जाएगी कि पति पत्नी दोनों घोड़े के साथ पैदल चले तो ऐसे लोग तो मिलेंगे ही जिनका कहना होगा कि कैसे बेवकूफ लोग है। इनके पास घोड़ा है फिर भी *दोनों पैदल चल रहे हैं।*

अगर इन सभी स्थितियों के विपरीत घोड़े को दोनों मिलकर *उठा कर चलने* लगे तब तो वैसे भी पागलों वाली हरकते ही कहलाएगी। लोग तो कहेंगे कि कहीं पागल तो नहीं हो गए हैं।

अर्थात पूरी तरह से इस स्थिति को समझा जा सकता है कि आपको अपना काम बिना किसी भटकाव के साथ करना होगा तभी आप सफल हो सकते हो।

अगर दोनों पति पत्नी अपने मन की ही करेंगे और लोगों पर ध्यान नहीं दे तभी आगे बढ़ पाएंगे क्योंकि लोगों के विचार तो अपने अपने विचार है।

शायद आप मेरे कहने का मतलब समझ गए होंगे।

अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं और लोगों के बारे में सोच रहे हैं। तो इससे आप भूल जाए। अपने काम में पूरी तरह से ध्यान दें। और एक दिन सफलता आपके कदम चूमेगी।